

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-129/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर के 15 वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. भानुप्रतापपुर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर
2	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
3	शंकर नगर वार्ड
4	महात्मा गांधी वार्ड
5	प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी वार्ड
6	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7	शिवाजी वार्ड
8	शहीद भगत सिंह वार्ड
9	लाल बहादूर शास्त्री वार्ड
10	गुरुनानक वार्ड
11	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
12	शहीद चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
13	दुर्गा नयापारा वार्ड
14	महाराणा प्रताप वार्ड
15	लोकमान्य तिलक वार्ड

भानुप्रतापुर नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 डॉ भीमराव अम्बेडकर

- उत्तर :- धनऊराम पटेल के मकान से माईल स्टोन स्कूल होते हुए रामबरन मिश्रा के मकान तक ।
- पूर्व :- रामबरन मिश्रा के मकान से संतोषसिंह ठाकुर और शेख नासिद के मकान होते हुए प्रभूराम निषाद के मकान तक ।
- दक्षिण :- प्रभूराम निषाद के मकान से जनपद कार्यालय होते हुए एस.डी.एम निवास होकर सत्यनारायण तिवारी के मकान तक ।
- पश्चिम :- सत्यनारायण तिवारी के मकान से होते हुए नीलेश वर्मा के मकान से धनऊराम पटेल के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 02 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

- उत्तर :- दुग्गा पेट्रोल पंप वाले का मकान से चन्द्रशेखर श्रीवास मकान से मो.उसमान का मकान होकर सुरेश गैरेज तक ।
- पूर्व :- सुरेश गैरेज से कार्तिक यादव का निवास विष्णु शर्मा कॉम्प्लेक्स से होकर किशन मंत्री तक ।
- दक्षिण :- किशन मंत्री के मकान से चंदू किराना, पोस्ट ऑफिस निर्मल ऐजेंसी होकर गांधी के मकान तक ।
- पश्चिम :- गांधी के मकान से मोना होटल, अशोक होटल होते हुए शांति मोबाईल स्टोर से दुग्गा पेट्रोल पंप वाले का मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 03 शंकर नगर वार्ड

- उत्तर :- सरजूराम उसेण्डी के मकान से जोगेन्द्र देवनाथ के मकान होते हुए मेहराईन बाई के मकान तक ।
- पूर्व :- मेहराइन बाई के मकान से के.आर.टांडिया नागेश रेंजर, हर्षा कोठी, होकर आर.आई. कार्यालय तक ।
- दक्षिण :- आर.आई. के मकान से कोरे के मकान होकर मूलचंद नाग के घर तक ।
- पश्चिम :- मूलचंद नाग के घर से त्रिलोक के मकान होते हुए सरजूराम उसेण्डी के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 04 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर :- कन्हैयालाल पाण्डे के मकान से होते हुए रमनलाल, विजय तिवारी, परमेश्वर सारवा, रंजीतलाल नरेटी, बुधराम वैध से गिरेन्द्र साहू के मकान तक ।
- पूर्व :- गिरेन्द्र साहू के मकान से होते हुए गीता ठाकुर, सुरेश फरदिया, हरीसिंह ठाकुर से कमलेश सोनवानी के मकान तक ।
- दक्षिण :- कमलेश सोनवानी के मकान से होते हुए महाराणा प्रताप चौक, दुर्गा चौक से आंगनबाड़ी, संदीप बुक स्टोर, दिव्यांशु ज्वेलर्स के दुकान तक ।
- पश्चिम :- दिव्यांशु ज्वेलर्स दुकान से होते हुए दिलीप गंधर्व, मालेकर के मकान से होते हुए कन्हैयालाल पाण्डे के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 05 प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर :- परिवहन संघ से महालंकार, उमैदसिंह मृदुला सक्सेना के मकान से लक्ष्मी ठाकुर के मकान तक ।
- पूर्व :- लक्ष्मी ठाकुर के मकान से गणेश राम, व्यवहार न्यायालय के लिए आरक्षित भूमि तक ।
- दक्षिण :- व्यवहार न्यायालय हेतु आरक्षित भूमि से विश्राम गृह, हनुमान मंदिर, तहसील कार्यालय थाना होकर अनिता वॉच सेंटर तक ।
- पश्चिम :- कार्यालय नगर पंचायत से कृष्णा किराना होकर परिवहन संघ तक ।

वार्ड क्रमांक 06 पं.जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर :- आहूजा मोबाईल दुकान से लैम्प्स कार्यालय थाना प्रभारी निवास, तहसीलदार का निवास महालक्ष्मी ट्रेडर्स, बस्तर प्लास्टिक होकर सामुदायिक भवन वन विभाग तक ।
- पूर्व :- सामुदायिक भवन वन विभाग से होकर परदेशीराम मरकाम से निखिल रंगारी, पूनम डोंगरे के मकान तक ।
- दक्षिण :- पूनम डोंगरे के मकान से पी.एच.ई. कार्यालय होकर सामने वाली गली पार कर संतोष राठौर मुख्यतयार सिंह का मकान, डॉ. अनिल पशिने का मकान होकर रेखा राठौर के मकान तक ।
- पश्चिम :- रेखा राठौर के मकान से गुलशन होटल होते हुए कंगन स्टोर, नवकार ज्वेलर्स शर्मा होटल नितिन फोटोस्टूडियो होकर आहूजा मोबाईल दुकान तक ।

वार्ड क्रमांक 07 शिवाजी वार्ड

- उत्तर :- एम.जे.खान से रहीम खान ,एवन आटा चक्की होकर राजकुमारी सलाम मैडम, समुंद यादव के घर तक ।
- पूर्व :- समुंद यादव के घर से मस्जिद,साहू गुरुजी,धरमीन बाई, टोमन ठाकुर के मकान होकर महेन्द्र खुरसुंगे के मकान तक ।
- दक्षिण :- महेन्द्र खुरसुंगे के मकान से मरकाम सर, मानसिंह दुग्गा किराना दुकान, अजय सिंह राठौर मकान से होकर शिवनाथ कुलदीप तक ।
- पश्चिम :- शिवनाथ कुलदीप के घर से होकर रतनेश सिंह के मकान होकर एम.जे.खान के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 08 शहीद भगत सिंह वार्ड

- उत्तर :- गजधर किराना से रंजीत,मानकीबाई,फूल सिंह ,अनिल नेताम के मकान से बीरेन्द्र रावटे के मकान तक ।
- पूर्व :- बीरेन्द्र रावटे के मकान से जे.आर. ठाकुर,रत्ती मण्डावी के मकान से होकर सावित्री नेताम के घर तक ।
- दक्षिण :- सावित्री नेताम से सुखी राम पटेल ,एल.एल.साहू के मकान होकर नाईट्रोजन प्लांट तक ।
- पश्चिम :- नाईट्रोजन प्लांट से कुण्डू नरसिंह, आशा राम, डॉ. चौहान का मकान होकर गजधर किराना दुकान तक ।

वार्ड क्रमांक 09 लाल बहादूर शास्त्री वार्ड

- उत्तर :- पशु चिकित्सालय से चन्द्रकांत चौहान, नरेश नरेटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक ।
- पूर्व :- पशु चिकित्सालय से चन्द्रकांत चौहान शांडिल्य बक्शी ,कमला तिवारी के मकान से फायरस्टेशन तक ।
- दक्षिण :- फायरस्टेशन से पूरा आर.ई.एस.कॉलोनी तक ।
- पश्चिम :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से बालक छात्रावास तक ।

वार्ड क्रमांक 10 गुरुनानक वार्ड

- उत्तर :- गुरुद्वारा से कल्विन के मकान से होकर जगदीश पाईक के मकान तक ।
- पूर्व :- जगदीश पाईक के मकान से द्रोण टांडिया के घर से नाग बाड़ा तक ।
- दक्षिण :- नाग बाड़ा से मंगलू साहू के मकान से होते हुए सुनील सरकार के घर से संतोष गुप्ता के घर तक ।
- पश्चिम :- संतोष गुप्ता के घर से नितेश रेडिमेड से होते हुए बागोड़ी किराना स्टोर से गुरुद्वारा तक ।

वार्ड क्रमांक 11 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

- उत्तर :- गजाधर(दौलत) ठाकुर के मकान से दत्ता,दशरथ सिंह ठाकुर विष्णु साहा के मकान से होकर मेहमूद के मकान तक ।
- पूर्व :- मेहमूद के मकान से होते हुए रमेश केसरिया के मकान तक ।
- दक्षिण :- केसरिया के मकान से होते हुए रामाधर दुग्गा के मकान होकर पंकज बाजपेयी अशोक बैरागी, पश्चिम वनमण्डल कार्यालय तक ।
- पश्चिम :- पश्चिम वनमण्डल कार्यालय से शिप्राशिल पाल पशु आहार,सोलंकी गजाधर(दौलत) के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 12 शहीद चन्द्र शेखर आजाद वार्ड

- उत्तर :- कलादेवी राठौर के मकान से भुवन तिवारी, महेन्द्र सिंह बैस,दूल चंद के मकान से चंपालाल के मकान तक ।
- पूर्व :- कलादेवी राठौर के मकान से जगदंबा लौह भण्डार ,भागवत साहू,एस.डी.ओ.निवास के बगल तक ।
- दक्षिण :- एस.डी.ओ. निवास के बगल से उइके सर,सिन्हा ,राधेलाल,बंशी के मकान से होकर भरत कुंजाम के बाजु मकान तक ।
- पश्चिम :- रजऊराम के मकान से निरज,बीसोबाई के बाजु खेत संग्राम सिंह ,देवकी बाई ,के मकान से होते हुए चंपा लाल के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 13 दुर्गा नयापारा वार्ड

- उत्तर :- हिरामणी जूस सेन्टर से किसान मेडिकल होते हुए किसान स्टील तक ।
- पूर्व :- हिरामणी जूस सेन्टर से शहीद चन्द्र शेखर आजाद होटल, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स होकर त्रिलोक सिंह के मकान तक ।
- दक्षिण :- त्रिलोक सिंह के मकान से जोशी,उप्रति वकील ,श्रीमती विमला ठाकुर, फंदियाल के घर होकर गली पार कर रंगमंच तथा रंगमंच के पीछे घर तक ।
- पश्चिम :- किसान स्टील से दुर्गा मंदिर से मोहन हर्दवानी,गोस्वामी के मकान के सामने गली के दोनों ओर के मकान को शामिल कर फंदियाल के मकान तथा सडकपार कर रामलखन शर्मा के मकान होकर रंगमंच तथा रंगमंच के पीछे घर तक ।

वार्ड क्रमांक 14 महाराणा प्रताप वार्ड

- उत्तर :- सजावट फैंसी स्टोर से सपना स्टेडियो,संतोषी मंदिर होकर जैन हार्डवेयर तक ।
- पूर्व :- सजावट फैंसी स्टोर से विरेन्द्र पवार, राधेश्याम के मकान होकर दिलदार सिंह के मकान तक ।
- दक्षिण :- दिलदार सिंह के मकान से राजकुमार दुबे छबिलाल, कामता साहू,प्रताप सिंधी के मकान होते हुए नरेन्द्र पोटाई के मकान तक ।
- पश्चिम :- जैन हार्डवेयर से नरेन्द्र पोटाई के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 15 लोकमान्य तिलक वार्ड

- उत्तर :- कृष्णा गैरेज ऑटो पार्ट्स के अंजोरी साहू के मकान से, रमेश सोनी के मकान तक ।
 पूर्व :- कृष्णा गैरेज, कैलाश भीखम, पवार ताज, मो., राधाबाई के मकान होकर सुरेश सचदेव के मकान तक ।
 दक्षिण :- सुरेश सचदेव के मकान से दीनानाथ तिवारी चर्च होकर राजू गावड़े के मकान तक ।
 पश्चिम :- राजू गावड़े के मकान से देवेन्द्र ठाकुर, वीरेन्द्र जैन के मकान से रमेश सोनी के मकान तक ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-129/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-129/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar, the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F1-129/2019/18.-In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Bhanupratappur, Distt. Uttar bastar, kanker as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Bhanupratappur into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Dr. Bhimrao Ambedkar ward
2	Sardar Vallabh Bhai Patel ward
3	Shankar Nagar ward
4	Mahatma Gandhi ward
5	Priyadarshini Indira Gandhi ward
6	Pt. Jawaharlal Nehru ward
7	Shivaji ward

8	Shaheed Bhagat Singh ward
9	Lal Bahadur Shastri ward
10	Guru Nanak ward
11	Netaji Subhash Chandra Bose ward
12	Shaheed Chandra Shekhar Azad ward
13	Durga Nayapara ward
14	Maharana Pratap ward
15	Lokmanya Tilak ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat bhanupratappur

Word No. 01 Dr.BHIMRAO AMBEDKAR WARD

- NORTH :- Starting from Dhanu Ram Patel house upto Maile Ston School Through rambaran mishra House
- EAST :- Starting from rambaran mishra house upto Santosh Singh Thakur and Shek Nashid House though Prabhu Ram Nishad House.
- SOUTH :- Starting from Prabhu Ram Nishad House upto Janpad Office and SDM Niwas Through Satyanarayan Tiwari house.
- WEST :- Satyanarayan Tiwari house upto Nilesh Varma Through Dhanu Ram Patel house.

Ward No. 02 SARDAR BALLABH BHAI PATEL WARD

- NORTH :- Starting from Dugga Petrol Pamp house upto Chandrashekhar Shriwas through Md. Ushaman & Suresh Garaj.
- EAST :- Starting from Suresh garaj upto Kartik Yadav Niwas, Vishnu Complex Through Kishan mantri's Complex.
- SOUTH :- Starting from Kishan mantri's upto gandhi's Niwas through chandu kirana post office nirmal Agency, Gandhi House.
- WEST :- Starting from gandhi's niwas to Mona Hotel, Shanti Mobile Store Through Dugga Petrol Pamp House .

Ward No. 03 SHANKAR NAGAR WARD

- NORTH :- Starting from Sarju ram usendi house upto Meharin bai's house through Jogendra nath House.
- EAST :- Starting from meharin bai's house upto RI Residence through K.R. tandiya, Nagesh range office and harra kothi R.I. Office.
- SOUTH :- Starting from RI residence upto mulchand Nag's house through kore kumud bihari Mandal & mathyu's house.
- WEST :- Starting from mulchands house upto saraju Ram usendi's house through trilok's house.

Ward No. 04 MAHATMA GANDHI WARD

- NORTH :-** Starting from Kanhaiya Lal Pande House upto Raman Lal, Vijay Tiwari, Parmeshwar Sarva, Ranjit Lal Nareti, Budh Ram Vaidh to Through Girendra Sahu House.
- EAST :-** Starting from Girendra Sahu house upto Geeta Thakur, Suresh Fardiya upto Harisingh Thakur Through Kamlesh Sonwani house.
- SOUTH :-** Starting from Kamlesh Sonwani upto Maharana Pratap Chouk, Durga Chouk Though Aaganbadi, Sandeep Book deepo, Divyanshu Jewelers.
- WEST :-** Starting from Divyanshu Jewelers upto Dilip Gandharv Malekar's house Through Kanhaiya Lal Pande House,s.

Ward No. 05 PRIYADARSHANI INDIRA GANDHI WARD

- NORTH :-** Starting from Pariwahan sangh upto laxmi thakur's house through umed singh mridula saxena's house.
- EAST :-** Starting from laxmi thakur's house Upto ganesh ram, reserve plot for court.
- SOUTH :-** Starting from plot for court upto Anita watch Center through hanuman mandir police sation etc.
- WEST :-** Starting from Nagar panchayat office upto Krishna Kirana Store through Pariwahan Sangh.

Ward No.06 PANDITJAWAHAR LAL NEHRU WARD

- NORTH :-** Starting from Ahuja Mobile Store upto Lams Office, TI Office, Tahasildar niwas, Mahalxmi Tredars bastarplastic Through Samudayik Bhawan(forest).
- EAST :-** From Samudayik bhawan(forest) upto Pardeshi Ram Markam, Nikhil Rangari House through Punam Dongre House's.
- SOUTH :-** From Punam Dongre house upto up P.H.E. office, Santosh Rathore,s Dr.Pashine's house. Through Rekha Rathore House's.
- WEST :-** From Rekhga rathore's house upto Gulshan Hotel, Kangan Store, Novkar Jewelers, Sarma Hotel, Nitin Studio Through Ahuja Mobile Store.

Ward No. 07 SHIVAJI WARD

- NORTH :-** Starting from M.J. khans's house A-one Atta chakki Upto Rajkumari Salam, through Rahim khan, Samund Yadav's House.
- EAST :-** Samund yadav's house upto sahu through guruji, Toman Thakur Through Mahendra khursunge house.
- SOUTH :-** From Mahendra khursunge house upto Markam House Through Mansingh dugga, Ajay Rathor's house to Shivnath Kuldeep house.
- WEST :-** Starting from Shivnath Kuldeep house upto Ratnesh Singh house through. M.J.khan's House.

Ward No. 08 SHAHEED BHAGAT SINGH WARD

- NORTH :- Starting from Gadhar kirana upto Pramila Sori's house through manaki bai phool Singh's house.
- EAST :- Starting from Pramila sori's house upto Sawitri Netam's house through J.R. thakur Ratti mandavi's house.
- SOUTH :- Starting from Sawitri netam's house upto Nitrogen plant through sukhi ram patel, upto Gajadhar kirana store through kund Narsingh, aasha ram's house.
- WEST :- Starting from Nitrogen plant upto Gajadhar Kirana store through kundu, Narsingh, Asha ram's house.

Ward No. 09 LAL BAHADUR SHASTRI WARD

- NORTH :- Starting form Vatnari hospital through chandrakant chouhan, Naresh nareti, Gov.Hospital through.
- EAST :- Starting from Vatnari hospital upto Kamla Tiwari House through shandilya baxi Forest Steson.
- SOUTH :- Starting from Forest Steson upto whole R.E.S. Colony
- WEST :- Starting from Gov.hospital to Boy's boy's hostel through.

Ward No. 10 GURU NANAK WARD

- NORTH :- Starting from gurudwara to Kalivn house through Jagdesh Paik House .
- EAST :- Jagdesh Paik House upto Dron Tandiya Through Nag Bada.
- SOUTH :- Nag Bada upto Manglu Sahu House, Sunil Sarkar Through Santoshi Gupta House.
- WEST :- From S.K. Gupta's house upto Nitesh Rediment, Bagodi Kirana Store through Gurudwara jain, Choudhary kirana.

Ward No. 11 NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE WARD

- NORTH :- Starting from Gajadhar(Doulat) thkur's house upto Datta, Dashrath Singh Thakur, Vishnu Saha House's Through Mehmud House's.
- EAST :- Starting from Mehmud house upto Ramesh Kesariya House's.
- SOUTH :- Strting from Kesariya House upto Ramadhar Dugga House Pankaj bajpeyee, Ashok Bairagi Through forest office(w).
- WEST :- Starting from D.F.O. (w) to gangadhar Thakur's house through shiprashill, Paul pasuahar, solanki's house, Gajadhar(Doulat) House's.

Ward No. 12 SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD

- NORTH :- Starting from Kaladevi rathore's house upto Champalal house through Bhuwan tiwari, Mahendra baish's.
- EAST :- Starting from Kaladevi rathore's house upto S.D.O.(F) house through jagdamba loha Bhandar, bharat kunjam house.

- SOUTH** :- Starting from S.D.O(F) house upto bharat Kunjam house through uikey, sinha radhela, Banshi's hous
- WEST** :- Rajau Ram house upto champa lal house Through bishho bai, sangram singh's house.

Ward No. 13 DURGA NAYAPARA WARD

- NORTH** :- Starting from Hiramani Jus Center to kishan Medical Through Kisan Stil.
- EAST** :- starting from Hiramani Jus Center upto ajad hotel through sbi , petrol pump, Medical Store Trilok Singh House
- SOUTH** :- Starting from trilok singh's house upto Bihend Rangmanch through josi, smt. Vimla Thakur, fundayal house.
- WEST** :- Starting from kisan Stil upto bihend rangmanch through madan singh, durga Mandir, mohan hardwani, fandayal, Ramlakhan Sharma's house.

Ward No. 14 MAHARANA PRATAP WARD

- NORTH** :- Starting from Sajavat Fansi store to Jain Hardweare through Sapna Studio, santoshi mandir .
- EAST** :- Starting from Sajavat Fansi store upto dildar singh's house.
- SOUTH** :- Starting from dildar singh's house upto Narendra potai's house through rajkumar Dubey, chabbilal, kamta sahu, pratap singh House.
- WEST** :- Starting from Jain Hardweare Narendra potai's House.

Ward No. 15 LOKMANYA TILAK WARD

- NORTH** :- Starting from Krishana garage to soni's house Through kailash auto , anjori sahu, r.soni house.
- EAST** :- Starting from Krishana garage upto suresh sachdeo house through bhikham Panwar, radha bai house.
- SOUTH** :- Starting from Suresh Sachdeo house upto Raghu Gawade house through dinanath tiwari church.
- WEST** :- Starting from Raghu gawde house upto Ramesh soni's House.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKK, Deputy Secretary.